

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 1965/ फाल्गुन 4, 1886

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1965/PHALGUNA 4, 1886

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

ORDER

New Delhi, the 23rd February 1965

S.O. 707.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power conferred on it to make orders under Clauses (c), (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall in relation to the prices, stocks and movements of cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable in the district of Dhulla in the State of Maharashtra, also by the Collector of that district.

2. This order shall remain in force for a period of six months commencing on and from the date of its publication in the Gazette of India.

THE SCHEDULE

Varieties of cattle fodder

Hay.
Bhusa.
Gowar.
Karab, or Karbi or Kadbi
Grass.

[No. F. 1-3/64-C(E).]

G. R. KAMAT, Secy.

(III)

